



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 564]
No. 564]नई दिल्ली, मंगलवार, जून 25, 2002/आषाढ़ 4, 1924
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 25, 2002/ASADHA 4, 1924

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2002

का. आ. 665(अ).— केंद्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) की तारीख 4 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं० का.आ. 78 (अ) द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 (वड़ोदरा-भड़ौच खंड) का 109/00 कि.मी. से 192/00 कि.मी. तक का भाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा था।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखंड और स्थायी पुल के उपयोग के लिए फीस-लोक वित्तपोषित परियोजनाएं) नियम, 1997 के नियम 3 और 5 और राष्ट्रीय राजमार्ग (फीस की दर) नियम, 1997 के नियम 3 के उपनियम (1) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 के पूर्वोक्त भाग के उपयोग के लिए यंत्रीकृत वाहनों पर इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उदग्रहीत और संदत्त की जाएगी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी दर और ऐसी अवधि में फीस संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :

अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 (वड़ोदरा-भड़ौच खंड) का 109/00 कि.मी. से 192/00 कि.मी. के बीच भाग के उपयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरें

क्रम सं०	यान का विवरण	1.10. 2002 से 30.9.2003 तक की अवधि के लिए एकमार्गीय यात्रा हेतु प्रति यान प्रभारित की जाने वाली फीस की दर (रूपए)
----------	--------------	---

1.	कार या जीप या वैन	20.00
2.	हल्के वाणिज्यिक यान	35.00
3.	ट्रक/बस	75.00
4.	भारी निर्माण मशीनरी और अर्थमूविंग उपस्कर	155.00

टिप्पण 1. जब उसी यान को एक दिन में एक से अधिक बार उक्त परिभाषित पथकर सड़क खंड को पार करना है तो उपयोक्ता को यह विकल्प होगा कि वह पहली बार ही खंड पार करते समय उपर्युक्त दरों का डेढ़ गुणा संदाय कर दे या यदि यान को संपूर्ण मास में लगातार या प्रायः बार बार उक्त खंड का प्रयोग करना पड़ता है तो यान का स्वामी पूर्वोक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उसको लागू एकल दरों के तीस गुणा के बराबर प्रभारों का संदाय करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है ।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के यानों को फीस नहीं देनी होगी अथवा वसूल नहीं की जाएगी, अर्थात् :-

- (i) रक्षा यान,
- (ii) अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीक वाले यान,
- (iii) पुलिस यान,
- (iv) अग्नि शमन यान,
- (v) एम्बुलेंस,
- (vi) अन्त्येष्टि यान
- (vii) डाक और तार विभाग के यान, और
- (viii) केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यस्थ यान, और
- (ix) निम्नलिखित से संबंधित यान :-
 - (क) भारत के राष्ट्रपति,
 - (ख) भारत के उप राष्ट्रपति,
 - (ग) केंद्रीय और राज्य मंत्री,
 - (घ) राज्यों के राज्यपाल,
 - (ङ) संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल
 - (च) लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान मंडलों में प्रतिपक्ष के नेता, जिनका स्तर कैबिनेट मंत्री का है,
 - (छ) केंद्रीय और राज्य विधान मंडल के स्पीकर या सभापति,
 - (ज) चुने गए स्थानीय निकायों के कार्यकारी पार्षद
 - (झ) भारत के शासकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति,

- (अ) सी डी प्रतीक वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक,
 (ट) संसद सदस्य, और
 (ठ) अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में राज्य विधान सभा/परिषद के सदस्य

3. फीस की उपर्युक्त दरें, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और उस प्राधिकारी का नाम, पता टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जानी चाहिए, पथकर चौकी से 500 मी० आगे, पथकर चौकी से 100 मी० आगे और पथकर चौकी पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित किया जाएगा। संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्डों को पढ़ना सहज हो। खंड को पार करने वाले किसी यंत्रीकृत वाहन के संबंध में फीस वसूल करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिकृत व्यक्ति बदले में राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखंड और स्थायी पुल के उपयोग के लिए फीस-लोक वित्तपोषित परियोजनाएं) नियम, 1997 में यथा संलग्न प्रपत्र 'क' में दो प्रतियों में रसीद तैयार करेगा और रसीद की एक प्रति यंत्रीकृत वाहन के चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को सौंपेगा।

[सं. आर डब्ल्यू/एन एच-37011/24/2002-पी आई सी]

एन. के. सिन्हा, महानिदेशक (सड़क विकास) व अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2002

S. O. 665(E).—Whereas the Central Government has, in exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), entrusted the stretch of National Highway No. 8 in the State of Gujarat from Km. 109/00 to Km. 192/00 (Vadodara-Bharuch section) to the National Highways Authority of India vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 78(E), dated the 4th February, 1999.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rules 3 and 5 of the National Highways (Fees for the use of National Highways Section and Permanent Bridge – Public Funded Project) Rules, 1997, and sub-rule (1) of the rule 3 of the National Highways (Rate of Fee) Rules, 1997, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and paid fees on mechanical vehicles for the use of the said stretch of National Highway No.8 at the rates specified in the Schedule given below and hereby authorises the National Highways Authority of India or its authorized representative to collect the fees at such rate and within such period as specified in the Schedule namely:-

SCHEDULE

Rate of toll fee to be recovered from the users of stretch between Km. 109/000 to Km. 192/000 (Vadodara-Bharuch Section) of National Highway-8 in the State of Gujarat.

Sl.No.	Particulars of Vehicles	Rates of fee to be charged per vehicle for one way trip from the period 01.10.2002 to 30.09.2003 (Rs.)
1.	Car or Jeep or Van	20.00
2.	Light Commercial Vehicle	35.00
3.	Truck or Bus	75.00
4.	Heavy Construction Machinery and Earth Moving Equipment	155.00

Notes:

1. When the motor vehicle has to cross the defined toll Road Stretch more than once in a day, the user shall have the option to pay one and half times the above rates while crossing the section in the first trip itself or if the vehicle has to use the said stretch continuously and quite frequently for entire month, the vehicle owner can have a monthly pass on payment of charges equal to thirty times single rates applicable to it as specified in the aforesaid Schedule.

2. No fee shall be payable or collected under this notification on the following types vehicles, namely:-

- (i) Defence vehicles;
- (ii) Vehicles with VIP symbols;
- (iii) Police Vehicles;
- (iv) Fire fighting vehicles;
- (v) Ambulances;
- (vi) Funeral Vans;
- (vii) Post and Telegraph Departments vehicles;
- (viii) Central and State Government vehicles on duty; and
- (ix) the vehicles belonging to the -
 - (a) President of India;
 - (b) Vice President of India;
 - (c) Central and State Ministers;
 - (d) Governors of States;
 - (e) Lieutenant Governors of Union Territories;
 - (f) Leaders of Opposition in Lok Sabha, Rajya Sabha and State Legislatures, having the status of Cabinet Ministers;
 - (g) Speakers or Chairmen of the Central and State Legislatures;
 - (h) Executive Councillors of Local Elected Bodies;
 - (i) Foreign dignitaries on State visit to India;
 - (j) Foreign Diplomats stationed in India using cars with "CD" (Car Diplomat) symbols,
 - (k) Members of Parliament; and
 - (l) Members of State Legislative Assemblies/Councils within their respective constituencies..

3. The above mentioned rates of fee, the categories of vehicles on which no fee shall be payable and the name, address and telephone number of the authority to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500m ahead of the toll booths, 100m ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that it is easy for drivers to read the display boards. The person authorized by the National Highways Authority of India to collect fee in respect of any mechanical vehicle crossing the Section shall in return, keep a receipt in duplicate in Form 'A' as appended in the National Highways (Fees for the use of National Highways Section and Permanent Bridge – Public Funded Project) Rule, 1997, and hand over one copy of the receipt to the driver or owner or person in-charge of the mechanical vehicle.

[F. No. RW/NH-37011/24/2002-PIC]

N. K. SINHA, Director General (Road Development) & Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2002

का. आ. 666(अ).— केंद्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) की तारीख 4 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं० 78 (अ) द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 (भड़ौच-सूरत खंड) का 198/000 कि.मी. से 263/000 कि.मी. तक का भाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा था ।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखंड और स्थायी पुल के उपयोग के लिए फीस-लोक वित्तपोषित परियोजनाएं) नियम, 1997 के नियम 3 और 5 और राष्ट्रीय राजमार्ग (फीस की दर) नियम, 1997 के नियम 3 के उपनियम (1) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 के पूर्वोक्त भाग के उपयोग के लिए वाहनों पर इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उदग्रहीत और संदत्त की जाएगी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अथवा उसके निजी ठेकेदार के माध्यम से अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी दर और ऐसी अवधि में फीस संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 (भड़ौच-सूरत खंड) पर 198/000 कि.मी. से 263/000 कि.मी. के बीच भाग के उपयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरें

**क्रम सं० यान का प्रकार 1.7. 2002 से 30.6.2003 तक की
अवधि के लिए एकमार्गीय यात्रा हेतु
यान के लिए फीस की दर**

1.	2.	3.
1.	कार/जीप/वैन	15.00
2.	हल्के वाणिज्यिक यान	30.00
3.	ट्रक/बस	55.00
4.	भारी निर्माण मशीनरी और अर्थमूविंग उपस्कर	120.00

टिप्पण 1. जब उसी यान को एक दिन में एक से अधिक बार उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड को पार करना है तो उपयोक्ता को यह विकल्प होगा कि वह पहली बार ही खंड पार करते समय उपर्युक्त दरों का डेढ़ गुणा संदाय कर दे या यदि यान को संपूर्ण मास में लगातार या प्रायः बार बार या उससे आगे उक्त खंड का प्रयोग करना पड़ता है तो यान का स्वामी पूर्वोक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उसको लागू एकल दरों के तीस गुणा के बराबर प्रभारों का संदाय करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है ।

2. निम्नलिखित प्रकार के यानों को अनुसूची में ऊपर विनिर्दिष्ट फीस से छूट प्रदान की गई है, अर्थात् :-

- (i) रक्षा यान,
- (ii) अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीक वाले यान,
- (iii) पुलिस यान,
- (iv) अग्नि शमन यान,
- (v) एम्बुलेंस,
- (vi) अन्त्येष्टि यान
- (vii) डाक और तार विभाग के यान, और
- (viii) केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यस्थ यान

3. शासकीय रूप से निम्नलिखित से संबंधित यान, अति महत्वपूर्ण प्रतीक वाले यान समझे जाएंगे, अर्थात् :-

- (i) भारत के राष्ट्रपति,
- (ii) भारत के उप राष्ट्रपति,
- (iii) राज्यों के राज्यपाल,
- (iv) केंद्रीय और राज्य मंत्री,
- (v) लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान मंडलों में प्रतिपक्ष के नेता, जिनका स्तर कैबिनेट मंत्री का है,
- (vi) संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल
- (vii) केंद्रीय और राज्य विधान मंडल के स्पीकर या सभापति,
- (viii) कार्यकारी पार्षद
- (ix) भारत के शासकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति,
- (x) सी डी प्रतीक वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक,
- (xi) संसद सदस्य, और
- (xii) अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में राज्य विधान सभा/परिषद के सदस्य

4. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और उस प्राधिकारी का नाम, पता टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जानी चाहिए, पथकर चौकी से 500 मी० आगे, पथकर चौकी से 100 मी० आगे और पथकर चौकी पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित किया जाएगा । संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्डों को पढ़ना सहज हो ।

[सं. आर डब्ल्यू/एन एच-37011/25/2002-पी आई सी]

एन. के. सिन्हा, महानिदेशक (सड़क विकास) व अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2002

S. O. 666(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Roads Wing)'s No. 78(E), dated the 4th February, 1999, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretch from Km. 198/000 to Km. 263/000 of National Highway No.8 (Bharuch-Surat Section) in the State of Gujarat to the National Highways Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rules 3 and 5 of the National Highways (Fees for the use of National Highway Section and permanent Bridge – Public Funded Projects) Rules, 1997, and sub-rule (1) of the rule 3 of the National Highways (Rate of Fee) Rules, 1997, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and paid fees on vehicles for the use of the aforesaid stretch of National Highway No.8 at the rates specified in the Schedule annexed hereto and also authorise the National Highways Authority of India or through their private contractor to collect fees at such rate and within such period as specified in the Schedule, namely:-

Schedule

Rate of Fee to be recovered from the users of stretch between Km. 198/000 to Km. 263/000 (Bharuch-Surat Section) on National Highway No.8 in the State of Gujarat .

Sl.No.	Type of Vehicle	Fee rate for vehicle for one way trip from the period 01.07.2002 to 30.06.2003 (Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	Car/Jeep/Van	15.00
2.	Light Commercial Vehicle	30.00
3.	Truck/Bus	55.00
4.	Heavy Construction Machinery and Earth Moving Equipment	120.00

Notes 1. When the same vehicle has to cross the Section of the aforesaid National Highway more than once in a day, the user shall have the option to pay one and half times the above rates while crossing the Section in the first trip itself or if the vehicle has to use the said Section continuously and quite frequently for entire month, or even beyond that for much longer period the vehicle owner can have a monthly pass on payment of charges equal to thirty times single rates applicable to it as specified in the aforesaid Schedule.

2. The following vehicles are exempted from the fee specified above in the Schedule, namely:-

- (i) Defence vehicles,
- (ii) Vehicles with Very Important Person symbols,
- (iii) Police Vehicles,
- (iv) Fire fighting vehicles,
- (v) Ambulances,
- (vi) Funeral Vans,
- (vii) Post and Telegraph Department's vehicles, and
- (viii) Central and State Government vehicles on duty.

3. The vehicles officially belonging to the following shall be deemed to be vehicles having VIP symbols, namely:-

- (a) President of India,
- (b) Vice President of India,
- (c) Governors of States,
- (d) Central and State Ministers,
- (e) Leaders of Opposition in Lok Sabha/Rajya Sabha/State Legislatures, having the status of Cabinet Ministers.
- (f) Lt. Governors of Union Territories,
- (g) Speakers/Chairmen of Central and State Legislatures,
- (h) Executive Councilors,
- (i) Foreign dignitaries on State visit to India, and
- (j) Foreign Diplomats stationed in India using cars with "CD" symbols,
- (k) Members of Parliament, and
- (l) Members of State Legislative Assemblies/Councils within their respective constituencies..

4. The rates of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of the authority to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500m ahead of the toll booths, 100m ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that it is easy for drivers to read the display boards.

[F. No. RW/NH-37011/25/2002-PIC]

N. K. SINHA, Director General (Road Development) & Addl. Secy.